

विक्रय पत्र

बैनामा-9,50,000/- रूपये  
 स्टाम्प शुल्क-47,500/-रूपये  
 वर्तमान में दिया गया स्टाम्प शुल्क-47,500/-रूपये  
 विक्रीत सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल-(हेक्टेयर अथवा मीटर में)- 1329 वर्ग फिट अर्थात् 123.513 वर्ग मीटर, विक्रीत प्लॉट का क्षेत्रफल रेरा अधि० की धारा-3(2) के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेरा अधि० के अन्तर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है तथा विक्रीत सम्पत्ति किसी ग्रुप हाउसिंग मिक्सड डेवलपमेन्ट प्रोजैक्ट, रेजीडेन्सियल, कॉमर्शियल व इण्डस्ट्रीयल प्रोजैक्ट अथवा प्लॉटिड डेवलपमेन्ट प्रोजैक्ट से सम्बन्धित नहीं है।  
 विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - आवासीय खाली प्लॉट जिसमें कोई बाउन्डीवाल व निर्माण आदि नहीं है।

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/ और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण का प्रकार एवं एक मंजिला अथवा बहुमंजिला)

कवर्ड ऐरिया (यदि निर्माण है तो)- नहीं

स्थित-ग्राम/नगर/मौहल्ला- अर्धनगरीय क्षेत्र, मौजा/ग्राम ब्रहमपुर परगना व तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील, नगरीय व अर्धनगरीय आदि )

क्रेता तथा विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से संबन्धित है अथवा नहीं- नहीं  
 विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति से नहीं है तथा क्रेता/विक्रेता या उभय पक्ष विदेशी नागरिक नहीं है तथा विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के नहीं है। इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, भूटान नेपाल के नागरिक नहीं है तथा वहाँ रह रहे भारतीय मूल के नहीं हैं।

विक्रेता का स्वामित्व का आधार- द्वारा पंजीकृत बैनामा/खतौनी

भूमि पट्टे आदि की है अथवा नहीं - नहीं

चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं - नहीं

कृषि भूमि की स्थिति में - नहीं

(बाग,सिंचित/असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट में पृष्ठ संख्या व कालम संख्या- पृष्ठ-33 कालम-4(घ)24, श्रेणी-05 के अनुसार सर्किल रेट-7,000/-रूपये प्रति वर्ग मीटर, रास्ते की चौड़ाई 05 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम होने के कारण 05 प्रतिशत अतिरिक्त सहित सर्किल रेट-7,350/-रूपये प्रति वर्ग मीटर से कुल मालियत-9,07,820/-रूपये

मुख्य सड़क से दूरी (200 मीटर अथवा 200 मीटर से अधिक)- सर्किल रेट लिस्ट में उल्लेखित रुडकी-हरिद्वार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से व अन्य सम्पर्क/मुख्य मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

क्या क्रेता उत्तराखण्ड का कृषक है अथवा नहीं- क्रेता के परिवार के नाम उत्तराखण्ड राज्य में सन-2003 से पूर्व की अचल सम्पत्ति है।

फोटो व अंगुष्ठ प्रमाणितकर्ता- क्रेता व गवाहान की शिनाख्त पर

गुलशन कुमार एडवोकेट, रुडकी

Vandana

Self Attested

Rakesh Vashishtha

Rakesh Vashishtha

विक्रेता का नाम, पिता/पति का नाम व पता:- श्रीमती वन्दना सूद पत्नी श्री अनुज सूद निवासी मकान नम्बर 386 देवालय गणेश चौक रेलवे रोड़ रुड़की परगना व तहसील रुड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड राज्य (आई0डी0 आधार कार्ड नम्बर 2907 4772 8147)-

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति के स्वामी व अधिकारी है जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध आदि से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तान्तरण तथा बन्धक आदि नहीं है और कोई ऋण आदि किसी महकमे बैंक सोसायटी आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके नहीं लिया हुआ है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तान्तरित करने मे प्रतिज्ञ पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः प्रतिज्ञ ने अपनी मन बुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा मे बिना किसी जोर व दबाव के निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले मुबलिंग-9,50,000/-रूपये (नौ लाख पचास हजार रूपये) मे हाथ राकेश वशिष्ठ पुत्र स्व0 रमेश चन्द शर्मा निवासी मकान नम्बर 841 श्री राधेकृष्ण निकेतन मौहल्ला न्यू आदर्श नगर रुड़की परगना व तहसील रुड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (आई0डी0 आधार कार्ड नम्बर 6756 53137061)-



*Vandana*

Gulsana  
R. No.-UP-3846/76 UA-400/10  
Ch. No.-130 (Spec. Court) Roorkee  
Mob.: 9637651527



Gulshan Kumar  
R. No.-UP-3846/76 UA-400/10  
Ch. No.-130 (Spec. Court) Roorkee  
Mob.: 9637651527

*Vandana*

*Self Attested  
Rakesh Varshni  
Rakesh Varshni*

है। तत्पश्चात् इसके कोई मूल्यराशि क्रेता के जिम्मे शेष नहीं रही है और ना ही भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का विक्रेता ने बखूबी वाकई मौके पर करा दिया है और अपना कब्जा व दखल हर प्रकार से हटा लिया है। अब प्रतिज्ञ वचन देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करे हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करे, अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्यराशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है और ना ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुकश कानूनी के कारण या किसी वाद विवाद करने पर सम्पत्ति निम्नलिखित कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश मूल्यराशि मुझ प्रतिज्ञ से या मेरी/हमारी जात खास जायदाद से वसूल कर लेवे। इसमें मुझ प्रतिज्ञ या मेरे/हमारे वारसान को कोई उजर या आपत्ति नहीं होगी। नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जो कि बरूये एक प्रतिज्ञ पर आमद होती है का पूरा पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा मय जुमला हक हकूक हर प्रकार सहित। विक्रेता ने क्रेता का कब्जा व दखल मौके पर अपने समान करा दिया है, तथा क्रेता के हक में दाखिल खारिज होने में विक्रेता पूरा पूरा सहयोग करेंगे। मय जुमला हक हकूक हर प्रकार सहित। विक्रीत प्लाट की भूमि का विक्रेता द्वारा बैनामा/खतौनी मालिक व काबिज है। विक्रीत प्लाट की भूमि मय दीगर भूमि सहित विक्रेता ने द्वारा रजि० बैनामा दिनांक 22.05.2014 को इकरारी शेख फैजान अहमद पुत्र स्व० हाजी अल्लारक्खा हाल निवासी ग्राम बहमपुर परगना व तहसील रुड़की जिला हरिद्वार मुख्तारैआम ओर से श्रीमती फरहत रेशमा पत्नी शेख फैजान अहमद निवासी ग्राम ब्रहमपुर परगना व तहसील रुड़की जिला हरिद्वार से खरीद की हुई है। जिसकी रजि० बही नम्बर 1 जिल्द नम्बर 2272 के पृष्ठ संख्या-371 से 392 में दस्तावेज नम्बर 4039 पर दिनांक-22.05.2014 को कार्यालय उप निबन्धक रुड़की में हुई है। जिसका दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है तथा विक्रेता आज अपने सुनिश्चित भाग की भूमि में से निम्नवर्णित प्लाट विक्रय कर रही है। विक्रीत प्लाट निम्नवर्णित जिस खसरा नम्बर से सम्बन्धित है, उक्त खसरा नम्बर की भूमि में न्यायालय सहा० कलैक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी रुड़की के वाद संख्या-258/2012-13, फरहत रेशमा बनाम उत्तराखण्ड सरकार अ०धारा-143 ज०वि० अधि०, में पारित आदेश दिनांक-06.07.2013 के द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित है।

Vandana Sarda

Self Attested  
Farukh Vashishthi

413

पमोद कुमार श्यमी  
सचिव, न्यायिक सेवा, उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK95394340177061S
Certificate Issued Date	: 02-Nov-2020 01:36 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1222704/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK122270493868471172977S
Purchased by	: RAKESH VASHISHT
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: MOJA BRHAMPUR PARGNA AND TEHSIL ROORKEE
Consideration Price (Rs.)	: 9,50,000 (Nine Lakh Fifty Thousand only)
First Party	: SMT VANDANA SOOD
Second Party	: RAKESH VASHISHT
Stamp Duty Paid By	: RAKESH VASHISHT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 47,500 (Forty Seven Thousand Five Hundred only)



VERIFIED  
LOCKED

.....Please write or type below this line.....

(3)

को विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है तथा कुल मूल्यराशि विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर ली

*Vandana sood*

*Rakesh vashisht*

SR 0010636258

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of State Molding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

*Self Attested  
Rakesh Vashisht*

(5)

4/4

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गई है:- एक किता आवासीय खाली प्लाट जो प्राईवेट प्लाट नम्बर 64 व 65 का उत्तर का भाग है, जिसकी पैमाईश पूरब की ओर 34 फिट व पश्चिम की ओर 34 फिट व उत्तर की ओर 39 फिट व दक्षिण की ओर 39 फिट 3 इन्च है, जिसका कुल पैमाईश का कुल क्षेत्रफल 1329 वर्ग फिट अर्थात 123.513 वर्ग मीटर है, मुतालिका खसरा नम्बर 403 मि: का भाग है, स्थित मौजा/ग्राम ब्रहमपुर परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार, जिसके हद्द पूरब में प्लाट नाम नामालूम व पश्चिम में रास्ता 25 फिट चौड़ा वास्ते आम्दोरफत व हक्के इस्तेमाल व उत्तर में प्लाट नाम नामालूम व दक्षिण में प्लाट जयराम शर्मा का है, मय कुल जुमला हक हक्क हर प्रकार सहित, विक्रय किया है। विक्रेता व क्रेता एक दूसरे के परिचित है तथा विक्रेता व क्रेता के द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार व मौखिक बताये अनुसार ही उक्त बैनामा ड्राफ्ट किया गया है।

सम्पत्ति का अक्षान्तर 29.880882 व देशान्तर 77.918915

विवरण वसूलयाबी जेरे समन:- कुल मूल्यराशि मुबलिग-9,50,000/-रूपये (नौ लाख पचास हजार रूपये) में से मु0-1,00,000/-रूपये द्वारा यू पी आई इलैक्ट्रॉनिक्स नम्बर एस बी ए 0000000812994 से दिनांक-09.08.2020 को विक्रेता पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 924000109226142 में व मु0-25,000/-रूपये द्वारा आई एम पी एस रैफरेन्स नम्बर 030711947550 दिनांक-02.11.2020 को व मु0-25,000/-रूपये द्वारा आई एम पी एस रैफरेन्स नम्बर 030711819729 दिनांक-02.11.2020 को व शेष मु0-8,00,000/-रूपये द्वारा चैक नम्बर 054452, दिनांकित-31.10.2020, एच.डी. एफ.सी. बैंक विक्रेता ने क्रेता से रुबरु गवाहान प्राप्त कर स्वीकार कर लिये है। बैनामा रजिस्ट्री के बाद क्रेता की ओर विक्रेता की अब कोई भी मूल्यराशि शेष नहीं रही है।

अतः यह विक्रय-पत्र अपने पूर्ण होश हवाश मे बिना किसी जोर व दबाव के अपने मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा मे रुबरु गवाहान हाशिया लिख दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

Vandana Sood

Jeetesh Varshni

Self Attested

Jeetesh Varshni

(6)

415

विक्रेता के  
बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



दांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



vandana sood  
विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के  
बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



दांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह



Self Attested  
Rakesh Vashishth  
क्रेता के हस्ताक्षर



उत्तराखण्ड शासन

# Online Public Data Entry Summary



DISTRICT NAME : हरिद्वार SRO : रुडकी

UKPDE2020075216300

2-Nov-2020

12:52:29PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

## Mutation Office तहसील रुडकी

Deed/Article Type : Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article : Sale (Residential Plot)

Village/Location For Index : ब्रह्मपुर

Village/Location/Road Selected for Circle Rate List : ब्रह्मपुर

Khewat :

Khatoni :

Khasra : 403m

House/Flat No:

Area : 123.51 वर्ग मीटर

Latitude : 29.8808820000

Longitude : 77.9189150000

Land Value : 908,000.00

Construction Value : 0.00

Transaction Value : 950,000.00

Market Value : 908,000.00

Advance : 0.00

Lease Period : 0.00

Avg. Rent : 0.00

Stamp Duty : 47,500.00

Regn Fees : 19,000.00

Pasting Fees : 100

Page : 26

क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण का विवरण			
क्र.सं.	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	हास वर्ष	रकम
क्र.सं.	भुगतान की विधि	निबंधक शुल्क का विवरण			
1	Cash	बनराशि	संबंध क्रमांक		
		19,000.00			
क्र.सं.	भुगतान की विधि	स्टाम्प शुल्क का विवरण			
1	e-Stamp	बनराशि	संबंध क्रमांक	जापी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
		47,500.00	0	2-Nov-2020	

Vandana 2020

Rakesh Varshni

Self Attested  
Rakesh Varshni

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Mutation Office तहसील रूडकी

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्रीमती वन्दना सुद पत्नी श्री अनुज सुद निवासी ३८६ देवालय गणेश चौक रेवने रोड रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार	<i>Vandana Sud</i>	OTHERS			ADHAAR : 290747728147
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री राकेश वशिष्ठ पुत्र श्री स्वर्गीव रमेश चन्द्र शर्मा निवासी ८४१ श्री राधेकृष्ण निराला न्यू आदर्श नगर रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार	<i>Rakesh Vashishth</i>	OTHERS			ADHAAR : 675653137061
गवाह	श्रीमती अरुणा शर्मा पत्नी श्री जयराम शर्मा निवासी ८१४ मीहल्ला न्यू आदर्श नगर रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार	<i>अरुणा शर्मा</i>	OTHERS			-Select : 0000
गवाह	श्री जयराम शर्मा पुत्र श्री स्वर्गीव रमेश चन्द्र शर्मा निवासी ८१४ मीहल्ला न्यू आदर्श नगर रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार	<i>जयराम शर्मा</i>	OTHERS			-Select : 0000

Deed Writer /Advocate Name : Gulshan Kumar Adv.

*Self Attested*  
*Rakesh Vashishth*




**भारत सरकार**  
 Government of India


 वंदना सूद  
 Vandana Sood  
 जन्म तिथि/DOB: 08/06/1964  
 महिला/ FEMALE




**2907 4772 8147**

**मेरा आधार, मेरी पहचान**

4/8

Vandana Sood


**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**  
 Unique Identification Authority of India

**Address:**  
 W/O Shri Anuj Sood, 386  
 DEVALAYA, RAILWAY ROAD,  
 GANESH CHOK, GANESHPUR,  
 Roorkee, Hardwar,  
 Uttarakhand - 247667

**पता:**  
 W/O श्री अनुज सूद, ३८६ देवालय, रेलवे रोड,  
 गणेश चोक, गणेशपुर, रुड़की, हरिद्वार,  
 उत्तराखंड - 247667

**2907 4772 8147**

हाता @ uidai.gov.in

Self Attested  
Rakesh Varshni

भारत सरकार  
Government of India



रकेश वशिष्ठ  
Rakesh Vashisht

जन्म तिथि / DOB 16/08/1977  
पुरुष / Male



6756 5313 7061

4/9

आधार - आम आदमी का अधिकार

*Rakesh Vashisht*

आधार  
Unique Identification Authority of India

पता: आरमज: स्वर्गी, रमेश चन्द  
शर्मा, मकान संख्या 573, हरिद्वार रोड  
न्यू आदर्श नगर, रूढ़ी, रुढ़ी  
हरिद्वार, उत्तराखण्ड, 247667

Address: S/O: Late. Ramesh  
Chand Sharma, House  
Number 573, Haridwar  
Road, New Adarsh Nagar,  
Roorkee, Roorkee, Haridwar,  
Roorkee, Uttarakhand,  
247667

6756 5313 7061

1947  
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in


*Sd/- Attested  
Rakesh Vashisht*

Google Maps 29°52'51.2"N 77°55'08.1"E

4/10









Imagery ©2020 Maxar Technologies, Map data ©2020 10 m




29°52'51.2"N 77°55'08.1"E

29.880882, 77.918915

-   
Directions
-   
Save
-   
Nearby
-   
Send to your phone
-   
Share


 Modipuram, Uttarakhand 247667

 VWJ9+9H Modipuram, Uttarakhand

Rakesh Varshni

Vandana Singh  
Self Attested  
Rakesh Varshni

4/11



Vandana seed

Jeff Attersteal  
 Genesh Vashishtha  
 Genesh Vashishtha

गवाह नं0-1. अरुणा शर्मा.....

श्रीमती अरुणा शर्मा पत्नी श्री जयराम शर्मा  
निवासी मकान नम्बर 814 न्यू आदर्श नगर रुड़की  
तहसील रुड़की जिला हरिद्वार।

गवाह नं0-2. जयराम शर्मा.....

जयराम शर्मा पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र शर्मा  
निवासी मकान नम्बर 814 न्यू आदर्श नगर रुड़की  
तहसील रुड़की जिला हरिद्वार।

लेख तिथी- 02.11.2020ई0

रचेयता एवं फोटो व अगुंष्ट Guishan Kumar Advocate  
R. No. - UP-2846/70 (The Court) Roorkee  
Prमाणित- गुलशन कुमार एडवोकेट, रुड़की  
C. No. - 130 (The Court) Roorkee  
Mob.: 9837651527

Vandana 800d

Guishan Kumar  
Self Attested  
Guishan Kumar

## APPROVED

Employee No.:-6270

## Other Services

Application ID		886
1.	Name of the Applicant	RAKESH VASHISHT
2.	Type of Application/Representation	Grant of permission to Judicial Officers of the state for purchase and sale of movable or immovable property in terms of Rules 24 of U.P. Government Servant conduct Rule 1956.
3.	Designation	Addl. District & Sessions Judge
4.	Application	<p>ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी तहसील रूडकी, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) का मूल निवासी है। प्रार्थी एक आवासीय प्लॉट ग्राम-ब्रहमपुर, परगना व तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में खरीदना चाहता है। जिसकी पैमांश पूरव व पश्चिम की भुजा 34,34 फीट, उत्तर की भुजा 39 फीट, दक्षिण की लगभग 39.25 फीट, कुल क्षेत्रफल 1329 वर्ग फीट है, जिसका सर्किल रेट 7000/- रूपये प्रति वर्गमीटर है। जिसको 7695/- रूपये प्रतिवर्ग की अर्थात लगभग 715 रूपये स्कायर फीट की दर से कुल 09,50,000/-रूपये में क्रय किया जाना तय हुआ है। जो विक्रेता श्रीमती वन्दना सूद पत्नी अनुज सूद, निवासी 386, गणेशपुर, रूडकी, परगना व तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। प्लॉट को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सूचनायें प्रारूप संख्या 25/एडमिन(ए)दिनांकित13-07-1998 में उल्लिखित हैं, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। माननीय महोदय यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति का इकरारनामा दिनांक 10-08-2020 को किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त इकरारनामे के माध्यम से कुल देय धनराशि 09,50,000/- (नौ लाख पचास हजार रूपये) रूपये में से मुवलिंग 1,00,000/- (एक लाख रूपये) रूपये यू०पी०आंइ० (इलैक्ट्रोनिक माध्यम) से नं० एस०बी०ए० 000000812994 के माध्यम से विक्रेता को दिनांक 09-08-2020 को उनके पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 924000109226142 को प्रदान कर दी गयी है। जो मेरे द्वारा अपने सैलरी/बचत खाता संख्या 30207356835 से दिये गये हैं। अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त अचल सम्पत्ति के इकरारनामा महायदा मय की सूचना को ग्रहण करने के साथ साथ प्रार्थी को उपरोक्त प्लॉट को क्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा। सम्मान सहित</p>
5.	Date of Submission	17-08-2020

## ATTACHMENT

Attachment	Uploading Date
application	17/08/2020
photo_copy_passbook	27/08/2020

\*Red background attachments are uploaded in return of objection.